



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 2004—सितम्बर 3, 2004 (भाद्रपद 6, 1926)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 2004—SEPTEMBER 3, 2004 (BHADRA 6, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION I]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 21 जुलाई 2004

सं. ए-12011/2/98-प्रशा.-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 जून, 2004 के का. हा. सं. 5/16/2003-सी.एस.-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के के. स. आ. से. संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिकों, ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित) को दिनांक 01 जुलाई, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक या अधिकारियों की चयन सूची उपलब्ध होने तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

के. के. शर्मा

श्री बी. एस. घुम्न (जो इस समय माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के विशेष सहायक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।)

श्री आर. मणि

श्री डी. पी. हुरा

सुश्री सांबूतानाम गोपु

सुश्री एस. एन. ओबराय

श्री एच. सी. सहगल

2. उपर्युक्त व्यक्तियों की प्रधान निजी सचिव के पद पर पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उन्हें उक्त ग्रेड में अभिव्यक्तकाल तक बने रहने अथवा के. स. आ. से. संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिल जाएगा।

3. यह इस कार्यालय की दिनांक 27 जनवरी, 2004 की, समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में जारी किया जाता है।

एस. आनंदन

अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 अगस्त 2004

सं. डीपी/पर्स.2/2004/3233/11/10/2001-पर्स.1--राष्ट्रपति ने के. अ. ब्यूरो के निम्नलिखित पुलिस निरीक्षकों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,

विशेष पुलिस स्थापना में पदोन्नति पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तारीख से पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	एस. डी. शर्मा	28.04.2004 (पूर्वाह)
2.	फणी भूषण कर्ण	13.05.2004 (पूर्वाह)
3.	सुशील प्रसाद सिंह	27.04.2004 (पूर्वाह)
4.	एस. सी. डांडियाल	27.04.2004 (पूर्वाह)
5.	वी. अशोक कुमार	27.04.2004 (पूर्वाह)
6.	जय कुमार श्रीधरन	27.04.2004 (पूर्वाह)
7.	एस. बी. शंकर	27.04.2004 (पूर्वाह)
8.	के. एम. चर्की	17.05.2004 (पूर्वाह)
9.	एस. एस. गिरि	28.04.2004 (पूर्वाह)
10.	सैयद बजुउल्लाह	28.04.2004 (पूर्वाह)
11.	अशोक शर्मा	27.04.2004 (पूर्वाह)
12.	पार्थ मुखर्जी	27.04.2004 (पूर्वाह)
13.	हरि कुमार चार्ड	01.05.2004 (अपराह)
14.	एस. के. के. सरिन	30.04.2004 (अपराह)
15.	एन. कृष्णामूर्ति	27.04.2004 (पूर्वाह)
16.	हरि दत्त पी. जी.	19.05.2004 (पूर्वाह)
17.	पी. बालाचन्द्रन	27.04.2004 (पूर्वाह)
18.	अजय कुमार	27.04.2004 (पूर्वाह)
19.	राफत मोह्य खान	12.05.2004 (अपराह)
20.	पी. राममोहन राव	27.04.2004 (पूर्वाह)
21.	राय अलेक्जेंडर	28.04.2004 (पूर्वाह)
22.	देवेन्द्र सिंह	26.04.2004 (पूर्वाह)
23.	सतीश डगर	30.04.2004 (पूर्वाह)
24.	एस. के. नायर	10.05.2004 (अपराह)
25.	शांतनु कार	27.04.2004 (पूर्वाह)
26.	एस. बालासुब्रमणि	30.04.2004 (अपराह)
27.	सुदीप राय	26.04.2004 (पूर्वाह)
28.	तपन ज्योति घोष	30.04.2004 (पूर्वाह)
29.	राजीव द्विवेदी	26.04.2004 (अपराह)

1	2	3
30.	मलिनी कांत पाठक	06.05.2004 (पूर्वाह)
31.	नन्द कुमार बी. डी.	27.04.2004 (पूर्वाह)
32.	बी. बाबू	27.04.2004 (पूर्वाह)
33.	नानू सुबेन्द्रन	19.05.2004 (पूर्वाह)
34.	आर. एन. मिश्रा	26.04.2004 (अपराह)
35.	शाह नवाज खान	27.04.2004 (पूर्वाह)
36.	रवि गंभीर	05.05.2004 (पूर्वाह)
37.	अनुज आर्य	28.04.2004 (पूर्वाह)
38.	धनबाबू सिंघा	31.05.2004 (पूर्वाह)
39.	पार्थ सारथी बोस	11.05.2004 (पूर्वाह)
40.	डी. एस. डगर	27.04.2004 (पूर्वाह)
41.	बी. एस. डाकुर	30.04.2004 (पूर्वाह)
42.	एम. एस. डगरी	30.04.2004 (अपराह)
43.	अनापय सिंह	25.05.2004 (पूर्वाह)
44.	आर. एस. कुरील	20.05.2004 (पूर्वाह)
45.	सुशी जी. लाकरा	27.04.2004 (पूर्वाह)
46.	ए. एम. डाकुर	30.04.2004 (पूर्वाह)

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2004

सं. 2/16/04/प्रशासन/296--केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोग में निजी सचिव श्री डी. डी. लोहानी को प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 13.08.2004 (पूर्वाह) से तीन माह की अवधि अर्थात् अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मोती लाल
उप सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 अगस्त 2004

सं. पी.सात-4/2004-कार्मिक-3--प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सूचक नंबर/कार्यालय

अधीनस्थों ने प्रत्येक के सामने लिखी गई कार्यालय में दर्शाई गई तिथियों की प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहाँ कार्यभार संभाला	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	श्री बी. के. मेघु	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक के. रि. पु. बल इम्काल, मणिपुर	28.06.2004 (पूर्वाह्न)
02.	श्री बी. पी. विजय कुमार	कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, पुन केंद्र के. रि. पु. बल गुवाहाटी आसाम	01.07.2004 (पूर्वाह्न)

जीगीन्दर सिंह
कमान्डेन्ट (कार्मिक-3)

नई दिल्ली-1110003, दिनांक 12 अगस्त 2004

सं. ओ.सी.-4302/वी.एफ.डी.सी.-पर्स-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से स्वीच्छक सेवानिवृत्ति होने सम्बन्धी नोटिस दिनांक 10.03.2004 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री छोटे लाल, उप कमान्डेन्ट, (ईरका नं. 4302), 61 बछलियन, के. रि. पु. बल, ने दिनांक 01.08.2004 (पूर्वाह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार उक्त अधिकारी की दिनांक 01.08.2004 पूर्वाह्न से बल की नकरी से निकासी जाता है।

के. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

समन्वय निदेशालय
(पुलिस क्षेत्र)

नई दिल्ली-3, दिनांक 8 अगस्त 2004

सं. ए-17011/18/2004-प्रशासन-1--इस निदेशालय के श्री आनंद सागर धिवाला, स्थायी अतिरिक्त सहायक निदेशक, स्वीच्छक सेवा निवृत्ति के अपने विकल्प के फलस्वरूप, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 47-ए के तहत दिनांक 01.08.2004 के पूर्वाह्न की सेवानिवृत्ति हो गई है। स्वीच्छक सेवा निवृत्ति होने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(1) के अनुसार तीन महीने पहले उन्होंने इस बारे में अनिवार्य सूचना देना ही थी।

कमलेश डेका
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 9 अगस्त 2004

सं. ई-16013(1)/4/97/कार्मिक-1/1813--श्री शफी आलम, भा. पु. सेवा (बीएच : 77) महानिरीक्षक (मुख्यालय) के.ओ.सु. बल मुख्यालय, नई दिल्ली ने अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन होने पर दिनांक 30 जून, 2004 (अपराह्न) को महानिरीक्षक (मुख्यालय) नई दिल्ली को पद का कार्यभार छोड़ दिया है। अधिकारी की नियमानुसार दिनांक 01.07.2004 से 60 दिनों का अर्जित अवकाश मंजूर किया गया है।

ड./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.बल

चित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नाशिक रोड, दिनांक 31 जुलाई 2004

सं. 415/स्वा.-18-1--श्री एस. डी. आबारे, निरीक्षक, विभागीय सुरक्षा संघटन की सुरक्षा अधिकारी (वर्ग "ख" राजपत्रित) के पद पर वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 01.07.2004 से 30.09.2004 तक या के. ओ. सु. बल, भा. प्र. सु. में पूरी तरह से लागू होने तक, इसमें जो भी पहलें हो, तक नियुक्त किया जाता है।

प्रकाश नारायण
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 9 अगस्त 2004

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-135--इस कार्यालय के श्री भजना नंद चुपाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी आर्थिक आधु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31.08.2004 (अपराह्न) की सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 26.08.1944 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 26.09.1966 है।

ड./- अपठनीय
उप निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-137--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व, श्री कर्ण सिंह, स्टेनो ग्रेड-I की 6,500-200-10,500/- रुपये

के वेतनमान में स्थानापन्न आधार पर निजी सचिव के रूप में दिनांक 30.07.2004 (अपराह्न) से आगे के आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय
उप निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय : प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी-13044/2004--प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित सहा. लेखा परीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नत तिथि
	सर्वश्री	
1.	बाबू लाल गुप्ता	09.03.2004
2.	गौरी शंकर शर्मा	01.04.2004
3.	दया राम यादव	03.06.2004
4.	प्रकाश जैन	02.06.2004
5.	राम सिंह मीणा-II, अ.ज.जा.	02.06.2004

वी. के. जैन
लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशा.-I)

सं. प्रशा.-I/ले.प./पी-13044/2004--प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, राजस्थान, जयपुर निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों से आगामी आदेशों तक के लिए सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नत तिथि
	सर्वश्री	
1.	मनोज कुमार बाहेती	31.03.2004
2.	राम शरण मीणा, अ.ज.जा.	06.04.2004
3.	मनोहर लाल मीणा, अ.ज.जा.	04.06.2004

वी. के. जैन
लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशा.-I

महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 3 अगस्त 2004

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ने श्रीमती के. ललिता देवी, सहायक लेखा अधिकारी को 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर लेखा

अधिकारी के रूप में 02.08.2004 अपराह्न से प्रभावी तिथि से सहर्ष पदोन्नति देते हैं।

यह पदोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों पर, यदि कोई हो, बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आन्ध्र प्रदेश न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन होगी।

डी. राधाकृष्णमूर्ति
उप महालेखाकार (प्रशा.)

महालेखाकार (ले. व ह.) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 13 अगस्त 2004

सं. का. स्था./ह. व री./ई-IV-चै/85--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की निम्नलिखित कर्मचारी सेवानिवृत्त हुई हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती मरिथाम्मा कुर्पन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.07.2004 (पूर्वाह्न) (स्वीच्छिक सेवानिवृत्ति)

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 11 अगस्त 2004

सं. प्रशा. I (लेप)/17-2 (लेपअ)/ भाग-IV/932, स्था. आ.सं. 18, स्थापन सं. प्रशा. I (लेप)/17-2 (लेपअ)/ भाग-IV/850, दिनांक 2.8.2004, द्वारा सूचित का.आ.ग. 462 दिनांक 02-08-2004 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए दिनांक से वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1.	श्री प्रसन्न कुमार भन्ज	02.08.2004 (अपराह्न)
2.	श्री के. बलमाया सास्त्री	04.08.2004 (अपराह्न)

लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/सी.ए.टी./उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त पर की गई है।

यशोवन्त नारायण खर्करी
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय : महालेखाकार (लेखा एवं हकचारी), ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 2 अगस्त 2004

सं. प्रशा.-I-भा.ले.वि. ग्रुप 'ख'/475, स्था.आ.सं. 19--दिनांक 28.6.2004 से का.आ.ग.सं. 248 दिनांक 20.6.2004 में दिए गए पदोन्नति की स्वीकार करने के परिणामस्वरूप महालेखाकार, ओडिशा

ने श्री आर. एन. दास सहायक लेखा अधिकारी (उच्चतम अनुसंधान केन्द्र, चारवाहिया, जिला : कटक) को मूल नियमावली 22 के डीक नीचे के नियम में विहित प्रावधान के अंतर्गत एवं उनके कनिष्ठ सुश्री मिलीतपला महान्ती के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेखा अधिकारी पद पर जिसका वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर स्थापन पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती है।

लेखा अधिकारी वर्ग में श्री आर. एन. दास सुश्री मिलीतपला महान्ती से ऊपर एवं श्री देवेन्द्रनाथ साहू से नीचे रहेंगे। यह पदोन्नति तदर्थ आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामलों के अंतिम निर्णय तथा उनके बरिष्ठी के दायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है।

अरुण कुमार मन्त्र
उप महालेखाकार (प्रशासन)

वस्त्र मंत्रालय
(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

कोलकाता-700064, दिनांक 4 अगस्त 2004

सं. जूट(ए)/147/58-VI भाग-III--राष्ट्रपति ने श्री यू. सेन को सहायक निदेशक (जूट विनिर्माण) के वर्ग 'क' राजपत्रित पद पर वस्त्र मंत्रालय के पटसन आयुक्त के कार्यालय, कोलकाता में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान पर पूर्वप्रभावी दिनांक 01 अक्टूबर, 2002 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

इसे दिनांक 30-05-2003 के समसंख्यक पूर्व अधिसूचना का अधिग्रहण करते हुए जारी किया जाता है।

एस. के. दास
उप पटसन आयुक्त

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2004

सं. डू-31013/1/2004-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, लघु उद्योग विकास संगठन में, निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से उप निदेशक (रसायन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	स्थायी रूप से नियुक्त करने की तारीख
सर्वश्री		
1.	एस. एन. ताबुशीन	17.08.1990
2.	संकर एस. विजय कुमार (अनु. जाति)	12.11.1994
3.	डी. चन्द्रशेखर (अनु. जाति)	22.04.1998

एस. वि. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/727/84-प्रशा. (राज.)--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री गोपाल कृष्ण दत्ता, उप निदेशक (रसायन) लघु उद्योग

विकास संगठन के अन्तर्गत क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र, कोलकाता से दिनांक 31.07.2004 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. वि. एन. पिल्लै
उप निदेशक

खान मंत्रालय
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 13 अगस्त 2004

सं. 1928ए/ए-32013/5-निदे. (यां. अभि.)/2002/19वीं--विभागीय पदोन्नति समिति की संसृति पर राष्ट्रपति जी, श्री जी. के. मिश्रा यांत्रिक अभियंता (वरिष्ठ), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को निदेशक (यांत्रिक अभियंत्रण) के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक 23.07.2004 (पूर्वाह्न) से प्रभावित नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
क्षुब्ध महानिदेशक

कोयला एवं खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 2 अगस्त 2004

सं. ए-19011/411/2003-स्वा. ए. पी. पी.--श्री डी. एस. करकरे, कनिष्ठ खान भूवैज्ञानिक, भारतीय खान ब्यूरो, वाघवेल आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त की कालस्वरूप दिनांक 31.7.2004 के (अपराह्न) में कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

बी. सुंदर
सहायक प्रशासन अधिकारी

दिनांक 13 अगस्त 2004

सं. ए-19012/380/2004-स्वा. ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एस. डी. बैरागडे, भंडारी (तकनीकी) की भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 30.7.2004 के (पूर्वाह्न) से सहायक भंडार अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

बी. सुंदर
सहायक प्रशासन अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद-500 062, दिनांक 7 अगस्त 2004

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.क्यू.-2015/548.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री जी. बी. एन. अवधानी, वैज्ञानिक अधिकारी 'जी' (वेतनमान रु. 16,400-450-20,000/-) ने अपने पद से दिनांक 31.07.2004 से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राय
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-2296/549.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री सी राधाकृष्ण, वैज्ञानिक अधिकारी 'जी' (वैतनमान रु. 16,400-450-20,000/-) ने अपने पद से दिनांक 31.07.2004 से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-1758/550.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री टी चंद्रमौल्य्या, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वैतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने अपने पद से दिनांक 31.07.2004 से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 6 अगस्त 2004

सं. एफ. 48-एडी(एटी)/2004--निम्नलिखित कर्मचारियों को, एतद्वारा, तदर्थ आधार पर, अस्थायी क्षमता में, उनके नामों के समक्ष दर्शायी गई न्यायपीठों में, दर्शायी गई तिथियों से छः माह की अवधि के लिए अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आयकर अपीलीय अधिकरण में स्थापनापत्र रूप में सहायक पंजीकार के पदों पर, नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	न्यायपीठ/पीठें	दिनांक
	श्री/सर्वश्री		
1.	एस. के. रे (अधीक्षक)	मुंबई	06.09.2004
2.	एम. एम. बिस्वाल (कार्यालय अधीक्षक)	मुंबई	09.08.2004

उपयुक्त नियुक्तियाँ तदर्थ आधार पर हैं और यह उन्हें इस श्रेणी में नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेंगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं बरिष्ठता के अभिप्राय से अथवा उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति हेतु नहीं गिनी जाएगी।

विपुल गांधी
अध्यक्ष

सं. एफ. 301-एडी(एटी)/2004--श्री के. पी. विजयकुमार, आशुलिपि ग्रेड--II, गुजरात राज्य लोक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सीएच रोड, गांधीनगर, को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वैतन-2), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित,

प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद पीठें, अहमदाबाद में, दिनांक 19.07.2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थापनापत्र रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विपुल गांधी
अध्यक्ष

दिनांक 17 अगस्त 2004

सं. एफ. 48-एडी(एटी)/2004--आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठें, तदर्थ आधार पर, अधीक्षक के पद पर कार्यरत श्री पी. के. रस्तोगी, कार्यालय अधीक्षक को, तदर्थ आधार पर, दिनांक 22 जुलाई, 2004 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर पीठ में स्थापनापत्र रूप में, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री डी. जी. साहू, कार्यालय अधीक्षक, अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठें, कोलकाता की, तदर्थ आधार पर, दिनांक 19 जुलाई, 2004 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, आयकर अपीलीय अधिकरण, विशाखापट्टनम पीठ, विशाखापट्टनम में स्थापनापत्र रूप में, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

3. आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठें, नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर, अधीक्षक के पद पर कार्यरत श्री आर. खुजुर, कार्यालय अधीक्षक को, तदर्थ आधार पर, दिनांक 20 जुलाई, 2004 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, आयकर अपीलीय अधिकरण, अमृतसर में स्थापनापत्र रूप में, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपयुक्त नियुक्तियाँ तदर्थ आधार पर हैं और यह उन्हें इस श्रेणी में नियमित के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेंगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार प्रदत्त सेवाएं बरिष्ठता के अभिप्राय से अथवा उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति हेतु नहीं गिनी जाएगी।

विपुल गांधी
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लेण्डफार्म आर्टिफैक्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 अगस्त 2004

सं. 560(3)/55/79545/1308--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवकाश पर मैसर्स लेण्डमार्स आर्थिडेवल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूल कारण दर्शात न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट कर दी जायगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनुप्रिया फार्मिंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एल.ई.एल./19549/4088--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मनुप्रिया फार्मिंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनमोल इंडिकास्टर एण्ड फारेव्ही प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एल.ई.एल./22775/4095--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनमोल इंडिकास्टर एण्ड फारेव्ही प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अकबरपुर कोरुड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 8 अगस्त 2004

सं. एल.सी. (560)एल.ई.एल./29559/4097--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अकबरपुर कोरुड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का

नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सरयू शुगर मिल्स लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एल.ई.एल./15764/4099--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सरयू शुगर मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हुस्न हुस्न फार्मिंस कम्पनी लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एल.ई.एल./22402/4101--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हुस्न हुस्न फार्मिंस कम्पनी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. के.जी. मार्कोटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एल.ई.एल./24728/4103--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. के.जी. मार्कोटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स महालक्ष्मी गैसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस/7443/4105--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महालक्ष्मी गैसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

दी जाती है कि मैसर्स बुडस्वम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिंह एण्ड बर्मा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./14608/4107--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिंह एण्ड बर्मा फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्युनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्युनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राणी सती फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./14577/4109--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राणी सती फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्युनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बुडस्वम पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./11171/4111--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रुची प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./11265/4113--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) को अन्तर्गत मैसर्स रुबी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेमतर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./11172/4115--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रेमतर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हिण्डन सुगर मिल्स लिमिटेड
के विषय में।**

कागपूर, दिनांक ३ अगस्त २००४

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./15763/4117--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हिण्डन सुगर मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेम पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./11564/4119--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेम पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

दी जाती है कि मैसर्स साजम हाऊसिंग फाईनेन्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरविवेक फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./7800/4121--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हरविवेक फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सानिओ पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./9660/4135--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सानिओ पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साजम हाऊसिंग फाईनेन्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./13795/4137--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पैब फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./9169/4139--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पैब फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनुकित लरनिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)एस.ई.एस./19857/4141--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनुकित लरनिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. के. ट्रेडर्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./12859/4143--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. के. ट्रेडर्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनीशा एक्सक्यूटिव्स
(इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./6049/4145--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनीशा एक्सक्यूटिविजन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

दी जाती है कि मैसर्स एस. बी. मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स काशी फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रैम्को एलाय प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./18250/4147--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स रैम्को एलाय प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./11376/4153--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स काशी फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेरठ मोल्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी. के. एम. हाउसिंग एण्ड जनरल फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./16250/4149--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स वी. के. एम. हाउसिंग एण्ड जनरल फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./10604/4155--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेरठ मोल्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कनक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. वी. मोटर फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 4 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./19163/4151--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./19977/4179--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कनक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांच

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूनिक एक्सप्रेसन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./20371/4273--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स युनिक एक्सप्रेसन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शंकर फाइबरस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./12197/4275--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स शंकर फाइबरस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आयर रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जगोता फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./23341/4277--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार मैं एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जगोता फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./10691/4271--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना
दी जाती है कि मैसर्स गायत्री ह्यार परचेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विशेश्वर इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./13773/4279---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स विशेश्वर इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. डी. जी. फिनकैप लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 11 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./20704/4282---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे. डी. जी. फिनकैप लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इन्टेल हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./25757/4294---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्टेल हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रेरणा पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./22125/4296---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना

दी जाती है कि मैसर्स प्रेरणा पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पटना-800001, दिनांक 22 जुलाई 2004

सं. क.र./पैट/एस.ई.एस./560 (5)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 215 कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	कम्पनी संख्या
1	2	3
1.	दीना फ्यूल्स लि.	6635
2.	दीना फ़ेरो एलॉयज लि.	6809
3.	अर्चीन गिनीस कन्सट्रक्शन-कम्पनी प्रा. लि.	3415
4.	बिहार फैब्रिकेशन एण्ड कास्टिंग प्रा. लि.	0940
5.	निती प्रोपर्टीज प्रा. लि.	4446
6.	अंगूर पैट्स प्रा. लि.	7858
7.	समप्राती फाइनेंस प्रा. लि.	7537
8.	अमप्रा फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	5039
9.	भावीनी फर्मा प्रा. लि.	8867
10.	सपना फिल्म्स प्रा. लि.	9009
11.	कटरुका ट्रेडर्स प्रा. लि.	9008
12.	डायमंड कार्डस (इंडिया) प्रा. लि.	5741
13.	इंड गैसेज प्रा. लि.	5249
14.	अजय ट्रेडर्स प्रा. लि.	9010
15.	दीना कॉमर्शियल लि.	8593
16.	अब्दुल सत्तार डेबलपर्स प्रा. लि.	5421
17.	युगल जानकी प्रा. लि.	2056
18.	बालाजी इटैलीजेंस एण्ड सिक्युरिटी सर्विसेज प्रा. लि.	7596
19.	शिवशंकर ऑयल एण्ड दाल मिल्स प्रा. लि.	2324
20.	मोना कम्प्यूटर प्रा. लि.	7094
21.	बैकाल एक्सपोर्ट प्रा. लि.	7755
22.	शिवगंगा रिफायनरी प्रा. लि.	6799

1	2	3
23.	भवानी कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.	3178
24.	जयसवाल रॉलर फ्लावर मिल्स प्रा. लि.	3086
25.	अभिरुचि बिल्डर्स प्रा. लि.	3444
26.	आवास मार्केटिंग प्रा. लि.	5679
27.	केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन (बिहार) लि.	2806
28.	आशा एण्ड माया आयरन एण्ड स्टील को. प्रा. लि.	8808
29.	पटना स्टोर्स प्रा. लि.	126
30.	बैशाली टायर कोल्ड रिटर्निंग प्रा. लि.	3042
31.	तक्षशिला स्टील प्रा. लि.	6891
32.	एन आर मेटल्स प्रा. लि.	6467
33.	पिरूका इस्पात प्रा. लि.	4457
34.	बीहिव बिल्डर्स प्रा. लि.	4190
35.	कौशल व्यापार एण्ड विनियोग प्रा. लि.	2031
36.	गृहस्थ होम लिजिंग लि.	6927
37.	इमम पी ट्रेड्स प्रा. लि.	3565
38.	वैष्णव फिनवेस्ट प्रा. लि.	8088
39.	राघव आटोमोबाइल्स प्रा. लि.	2880
40.	रमसन कंसलटेंसी प्रा. लि.	1657
41.	आयडियल बिस्कुट को. लि.	3551
42.	मिरनाल डाटा पेरीपेरल्स प्रा. लि.	3388
43.	एस जी वी कम्प्यूटर प्रिंट प्रा. लि.	3225
44.	कारपोरेट एक्सपर्ट्स कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	7218
45.	नवशक्ति फिनवेस्ट प्रा. लि.	6344
46.	पासारी डाटा प्रोसेसिंग प्रा. लि.	4859
47.	अफ्रीफिनेवेस्ट प्रा. लि.	6343
48.	इजीयन फिनवेस्ट प्रा. लि.	6346
49.	डायनेमिक फिनसेक प्रा. लि.	6347
50.	गुटगुटिया पॉलिरब प्रा. लि.	3546
51.	प्रोफिट होमकेयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	7287
52.	ओम केबल्स प्रा. लि.	4563
53.	आज़ाद इंडिया हाऊसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट को. लि.	5720
54.	होटल लिच्छवी प्रा. लि.	2854
55.	बी.एल. कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	3052
56.	रमन एण्ड सन्स प्रा. लि.	2437
57.	फारवर्ड संविंग एण्ड प्लेसमेंट प्रा. लि.	6699
58.	स्वाइक पैक प्रा. लि.	8813

1	2	3
59.	बुद्धा हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	9376
60.	आईटेक होम्स प्रा. लि.	4808
61.	ट्रासन्स फूड्सको प्रा. लि.	6047
62.	रॉची ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.	8503
63.	कावेरी गंगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रा. लि.	3283
64.	अम्बा इंटरनेशनल (एक्जीम) प्रा. लि.	8484
65.	सनराइज फोटो प्रा. लि.	9469
66.	एकलव्या इंजीनियरिंग एण्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	9078
67.	सुप्रिया केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	2464
68.	इसजय सिविलरिटिज प्रा. लि.	6197
69.	एक्सनिया एक्सपोर्ट प्रा. लि.	4761
70.	आरोही कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	9341
71.	वीणा इंडिया स्मोकलेस फ्यूल प्रा. लि.	4762
72.	आलोक इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	2559
73.	अमन फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	1358
74.	शेल्टर कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	7924
75.	पी. एच. डीजल्स प्रा. लि.	1629
76.	जेबेक एक्सपो प्रा. लि.	5239
77.	रायल बेबरीज प्रा. लि.	2815
78.	अजन्ता एस्टेट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	1760
79.	द्वारिका अपार्टमेंट प्रा. लि.	4497
80.	एस आर मेन्थोल्स प्रा. लि.	5013
81.	जयंती कन्टेनर्स एण्ड प्लास्टिक्स प्रा. लि.	5333
82.	हसन प्रसाद आई सेन्टर प्रा. लि.	5087
83.	मेटाप्लानर्स एण्ड मेनेजमेंट कंसलटेंट्स प्रा. लि.	2422
84.	प्लाइवुड कोल ब्रीक्स मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि.	4243
85.	संकल्प बिजनेस इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	8681
86.	स्टैण्डर्ड वाक्स एण्ड केबुल्स प्रा. लि.	1369
87.	रूचिका फायनान्सियल सर्विसेज प्रा. लि.	7843
88.	काला स्टील्स प्रा. लि.	6123
89.	मिंजर कैसेट्स प्रा. लि.	5346
90.	सर्वोत्तम आईब्रीड प्रा. लि.	8640
91.	मैम इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	1129
92.	टी आर आई ओवरसीज प्रा. लि.	5224
93.	पटादिया इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	6701
94.	नर्मदा मिल्क फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	9056

1	2	3
95.	इन्वेस्टर्स कंसलटेन्ट प्रा. लि.	6065
96.	माधुरी बिल्डर्स प्रा. लि.	6497
97.	ऐश्वर्या सिमेंट लिमिटेड	5210
98.	नमस्कार इंजीनियर्स प्रा. लि.	5988
99.	अद्वयलिका नव निर्माण प्रा. लि.	2848
100.	राधा पॉलिमेडिक प्रा. लि.	2429
101.	आनंद एण्ड गायत्री शॉपिंग प्रा. लि.	3437
102.	सेल्को कन्सट्रक्शन प्रा. लि.	4183
103.	अना टेक्निकल इंटरप्राइजेज प्रा. लि.	3471
104.	भास्कर होम फिना प्रा. लि.	7121
105.	इन्फोटेक इंजीनियरिंग प्रा. लि.	8086
106.	मानसोना सिंथेटिक्स प्रा. लि.	4329
107.	जयसवाल एग्री ऑयल प्रा. लि.	7515
108.	पाटलिपुत्रा फूड्स प्रा. लि.	6923
109.	मॉडसन्स केमिकल्स एण्ड कासमेटिक्स प्रा. लि.	3270
110.	तराई सुगर इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	1371
111.	नेस्टले कन्सट्रक्शन प्रा. लि.	5664
112.	बबिला सिम्युरिटीज प्रा. लि.	6985
113.	तनवी बिल्डर्स प्रा. लि.	4339
114.	एपेक्स सर्जिकल प्रा. लि.	4204
115.	हर्षित होम्स प्रा. लि.	6451
116.	डी के एस फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लि.	6222
117.	एस पी पीपुल्स एसोसियेट्स लि.	0421
118.	मार्श केमिकल मैनुफैक्चरिंग को. प्रा. लि.	3039
119.	प्रारम्भिका एडुकेशन प्रा. लि.	9955
120.	पूर्वदीप ट्रांसमीशन प्रा. लि.	4106
121.	जाला रबर वर्क्स प्रा. लि.	4331
122.	श्री गणेश बोर्ड एण्ड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	2565
123.	एग्री इंडिया प्रा. लि.	1320
124.	विमलेश ट्रेडिंग प्रा. लि.	6850
125.	रोली मार्केटिंग सर्विसेज प्रा. लि.	8412
126.	शैलटास लिमिटेड	1046
127.	ग्लोब फैब्रिकेटर्स प्रा. लि.	1710
128.	अमित ऑयल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	2280
129.	शबनम इंजीनियरिंग एवं फाउंड्री प्रा. लि.	0736
130.	इस्टर्न पाइन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	5894

1	2	3
131.	डेल्टा कैरियर्स प्रा. लि.	9136
132.	कर्मपूरा केमिकल्स प्रा. लि.	1237
133.	भाटिया एण्ड एसोसियेट्स प्रा. लि.	3231
134.	बुधिया ब्रदर्स प्रा. लि.	142
135.	चान्दिल होटल प्रा. लि.	2140
136.	ममता डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	2761
137.	साहिल कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.	4236
138.	लाल प्रीसियस क्राफ्ट प्रा. लि.	9319
139.	जालान प्रिन्ट्स प्रा. लि.	1970
140.	द खंडेलवाल टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लि.	3931
141.	गीमा कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि.	9042
142.	ए.सा. मशीना बीज प्रा. लि.	8182
143.	मशीना हाइड्रीड प्रा. लि.	1427
144.	प्रीसीजन प्रोडक्ट्स (जमशेदपुर) प्रा. लि.	2221
145.	सिन्हा एस्टेट्स प्रा. लि.	7887
146.	सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन सर्विसेस प्रा. लि.	3499
147.	इंडियाना मार्केटिंग कम्पनी प्रा. लि.	1432
148.	आर. के. पब्लिसिटी प्रा. लि.	1288
149.	सुवर्णरेखा इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.	1708
150.	शाहाबाद ट्रांसफार्मर प्रा. लि.	8945
151.	आई आर ए सर्वेयर्स एण्ड बैल्यूयर्स प्रा. लि.	8688
152.	शिव कचल ट्रेडिंग प्रा. लि.	7649
153.	रक्षिता इंडस्ट्रीज लिमिटेड	7457
154.	जेनन कम्यूटर्स प्रा. लि.	7427
155.	जे. कॉन प्रा. लि.	3617
156.	मुकुल इंस प्रा. लि.	1978
157.	भामेश्वरी कोल ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.	3692
158.	ग्रीडविजन इन्फोटेक प्रा. लि.	जेएच 47
159.	पंच पॉली प्रा. लि.	3917
160.	इनरा कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि.	7435
161.	ग्रीनसीटी पब्लिकेशन प्रा. लि.	4984
162.	रविशंकर प्रसाद कन्सट्रक्शन प्रा. लि.	3618
163.	शमेरा लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	7216
164.	सप्तर्षि बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्रा. लि.	1973
165.	सिमान्त ट्रेवलर्स प्रा. लि.	3484
166.	मिथिला ग्रीन्स लिमिटेड	7451

1	2	3
167.	आवासनी डेवलपर्स प्रा. लि.	9243
168.	हिमालया फॉसफेट्स लिमिटेड	2124
169.	ओम शान्ति फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	2940
170.	संत कृपा राइस मिल्स प्रा. लि.	7768
171.	ओशिन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	5387
172.	पटना प्रकाशन लिमिटेड	5554
173.	विजेता चीकली लाट्री एजेंसी प्रा. लि.	3610
174.	आर्क-कॉन टेक इंजीनियर्स प्रा. लि.	3596
175.	होटल जयन्ती प्रा. लि.	6596
176.	ब्रीनयनी बिल्डर्स प्रा. लि.	7374
177.	श्री गणेश प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	4089
178.	मेघोप्रीम केमिकल (इंडिया) प्रा. लि.	3552
179.	श्रीजन इकोनॉमी इंडिया प्रा. लि.	7542
180.	एस जे एस फाइनांसियल एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.	6122
181.	हरिसन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	4522
182.	कनेक्टर्स इंडिया प्रा. लि.	3478
183.	शीतलइकोनॉमी इंडिया लिमिटेड	6857
184.	बिमला फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	3512
185.	शान्ति सर्विसेज प्रा. लि.	7734
186.	सुनीता फार्म्स प्रा. लि.	7501
187.	के के इन्व्हेस्टमेंट्स एडवाइजर्स प्रा. लि.	9724
188.	कुक्कास्ट फूड्स प्रा. लि.	3789
189.	दिल्ली साँप्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	2713
190.	गिन्नी ग्रेफाइट्स प्रा. लि.	6027
191.	राज एजुकेशनल फाउन्डेशन प्रा. लि.	7545
192.	राय केमिकल्स कम्पनी प्रा. लि.	3656
193.	अलंकार डेवलपर्स एण्ड कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.	5225
194.	फ्रेन्ड्स कार्बोनिज प्रा. लि.	3436
195.	हाजीपुर इन्स्टेंट टेक ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.	6310
196.	जयश्री गैसेज प्रा. लि.	2556
197.	ओमी फूड प्रा. लि.	5936
198.	संगीला फाइनांस प्रा. लि.	6606
199.	एड लैब प्रा. लि.	3473
200.	अरुण प्रियदर्शी ट्रेडिंग प्रा. लि.	8211
201.	धनबाद प्रकाशन प्रा. लि.	5076

1	2	3
202.	कॉसमेन फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.	4676
203.	कृष्णा इंजिटेक प्रा. लि.	3674
204.	दी इस्ट भालगौर कोलीयरी कम्पनी प्रा. लि.	0049
205.	एरोसॉल हेल्थकेयर प्रा. लि.	9701
206.	दासमेस इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	जेएच 139
207.	बिहार कंटेनर नेटवर्क मार्केटिंग प्रा. लि.	9917
208.	कोनार्क फारेस्ट्री एण्ड रिसोर्ट्स लि.	7961
209.	वीणा फेरो-कैम प्रा. लि.	8292
210.	पारागॉन ट्रांसमिशन (इंडिया) प्रा. लि.	4755
211.	मैकमी पेपर्स प्रा. लि.	4545
212.	रौशन ब्रदर्स कोल ट्रेडर्स प्रा. लि.	9067
213.	सी एम सी मार्केटिंग प्रा. लि.	3593
214.	टी एम एस बोर्ड्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	3046
215.	राज कमल निर्माण प्रा. लि.	9667

जे. के. जॉली
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में

चेन्नै, दिनांक 28 जुलाई 2004

सं. 8834 से 48723 तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गयी हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	8834	मैसर्स कस्टुमरायकन मेच वर्क्स कं. प्रा. लि.
2.	9767	मैसर्स द्रुप इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयर्स वेलफेयर फाउन्डेशन लि.
3.	10238	मैसर्स स्टानडर्ड इलीसन प्रा. लि.
4.	10547	मैसर्स कस्ट सनपावर प्रा. लि.
5.	13005	मैसर्स जास जीप्स प्रा. लि.
6.	13243	मैसर्स आर्यन चीन कं. लि.
7.	13479	मैसर्स श्री बाबाजी अलुमिनियम कंटेनर्स प्रा. लि.
8.	14489	मैसर्स सीधु प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.

1	2	3
9.	19500	मैसर्स जुवेल कान्स प्रा. लि.
10.	20283	मैसर्स वल्ली इरस प्रा. लि.
11.	20307	मैसर्स क्वान्टम कम्प्यूटर सर्विसस प्रा. लि.
12.	20816	मैसर्स जे सी फौनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
13.	21056	मैसर्स पट्टाभी टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
14.	21849	मैसर्स सेन्टील गणेश फौनेन्स प्रा. लि.
15.	28201	मैसर्स एस आर पी फौनेन्शियल सर्विसस प्रा. लि.
16.	28037	मैसर्स श्रीबास इस्टेट्स प्रा. लि.
17.	28546	मैसर्स कम्प्यु इलैयण्ट चिट्स प्रा. लि.
18.	28553	मैसर्स प्राडिगम ट्रान्सकाम्पस प्रा. लि.
19.	28604	मैसर्स श्री मलैयाण्डी चिट्स प्रा. लि.
20.	30174	मैसर्स जीसीडी ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.
21.	30787	मैसर्स वेलफिन इंडिया प्रा. लि.
22.	30809	मैसर्स दामोदर सेक्युरिटीज लि.
23.	30992	मैसर्स यूनीफिन बेनीफिट फण्ड लि.
24.	31340	मैसर्स एम आर फ्लोरिन प्रा. लि.
25.	31789	मैसर्स ई एस ई के होलडींग्स प्रा. लि.
26.	32858	मैसर्स परकट इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
27.	32899	मैसर्स सी बी एस कुडस इंडिया लि.
28.	32912	मैसर्स श्रीराम चिट्स (ईस्ट) प्रा. लि.
29.	35099	मैसर्स मास्टर मैण्डस कमप्यूटर्स प्रा. लि.
30.	35583	मैसर्स मेसा शीट्स व गोटेस फार्म्स इंडिया प्रा. लि.
31.	36679	मैसर्स सीलवर स्क्रीन फौनेन्शियल सर्विसस लि.
32.	32484	मैसर्स राजयोग पेपर्स प्रा. लि.
33.	40696	मैसर्स आमको ऐनेजी सिस्टम्स प्रा. लि.
34.	43149	मैसर्स कोनेरू प्रापर्टी डेवलपमेंट प्रा. लि.
35.	48723	ट्रेकान-पी एल शिपिंग व लाजिस्टिक प्रा. लि.

वी. स्वामीदासन
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में

चेन्नै, दिनांक 28 जुलाई 2004

सं. 9157 से 50046 तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर
से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	9157	मैसर्स एमवीडी होम अप्लेयन्सेस प्रा. लि.
2.	15609	मैसर्स सूमी लैदर्स प्रा. लि.
3.	18449	मैसर्स वेलाक्कण्णी यूथ वेलफेयर अकाडेमी प्रा. लि.
4.	18865	मैसर्स यूआईई इन्वेस्टमेंट्स फाईनान्स प्रा. लि.
5.	19078	मैसर्स ऐश्वर्य एग्रो टेक प्रा. लि.
6.	22895	मैसर्स गौरव सेल्स प्रा. लि.
7.	25473	मैसर्स एस एस पी आर साल्ट
8.	25637	मैसर्स सुरा लेदर्स एण्ड गारमेट्स लि.
9.	26391	मैसर्स जोतीनगर बेनीफिट फण्ड लि.
10.	26759	मैसर्स रस्तोगी फरनीशिंग्स प्रा. लि.
11.	27440	मैसर्स साक्स लीसींग एण्ड हायर परचेज प्रा. लि.
12.	29204	मैसर्स सम्स सेक्युरिटीस प्रा. लि.
13.	29219	मैसर्स रामाकृष्णा स्पाइसेस प्रा. लि.
14.	29331	मैसर्स एम आनी फाइनेशियल्स सर्वीसेस प्रा. लि.
15.	29332	मैसर्स एम आनी चिट्स प्रा. लि.
16.	29535	मैसर्स स्वेता फाइनेन्स प्रा. लि.
17.	30901	मैसर्स दुर्गा रोलेन्स प्रा. लि.
18.	31973	मैसर्स एन्वी रिस्क मैनेजमेंट प्रा. लि.
19.	32633	मैसर्स गास टेक (इंडिया) प्रा. लि.
20.	33427	मैसर्स अन्डमान डाईवर्स प्रा. लि.
21.	35496	मैसर्स साय मुरुगन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा. लि.
22.	36737	मैसर्स साय मुरुगन इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
23.	40825	मैसर्स सुदर्शन ट्रेवल्स सर्वीसेस प्रा. लि.
24.	43389	मैसर्स फीस्ट इन्न प्रा. लि.
25.	44310	मैसर्स सी आर वी इन्फोटेक प्रा. लि.
26.	44784	मैसर्स ऐ जे कारगो प्रा. लि.
27.	45220	मैसर्स एम्पावर सर्किल काम लि.
28.	45853	मैसर्स जमबा इण्डिया प्रा. लि.
29.	46247	ओल्ड पेरन्ट्स केयर टेकिंग आर्गेनाइजेशन प्रा. लि.
30.	46823	मैसर्स अन्डमान शिप मैनेजमेन्ट कम्पनी प्रा. लि.
31.	47818	मैसर्स टाइडल 2 लिमिटेड
32.	50046	मैसर्स डबल्यू एस पोरसीलैन्स प्रा.लि.

वी. स्वामीदासन
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 21st July 2004

No. A-12011/2/98-Admn.I—In pursuance of DOP & Trg. OM No. 5/16/2003-CS.II dated 24th June 2004, the President is pleased to appoint the following Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS to the Private Secretary Grade (Principal Private Secretary) of CSSS in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the cadre of UPSC on adhoc basis w.e.f. 01st July to 31st December 2004 or till Select List officers become available, or until further orders, whichever is earlier:—

Shri K.K. Sharma

Shri B.S. Ghuman (presently on deputation as Special Assistant to Hon'ble Chairman, UPSC)

Shri R. Mani

Shri D.P. Hura

Ms. Samburanam Gopu

Ms. S.M. Oberoi

Shri H.C. Sehgal

2. The promotion of the abovementioned officers as PPS is purely on adhoc basis and shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade of CSSS.

3. This issues in continuation of this office notification of even number dated 27th January 2004.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 12th August 2004

No. DPPERS.I/2004/3233/11/10/2001-Pers. I—The President is pleased to appoint the following Inspectors of Police, CBI as Deputy Supdts. of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, on promotion, with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment as DSP
1	2	3
	S/Shri	
1.	S.D. Sharma	28.4.2004 (FN)
2.	Fani Bhushan Karna	13.5.2004 (FN)
3.	Sushil Prasad Singh	27.4.2004 (FN)
4.	S. C. Dandriyal	27.4.2004 (FN)
5.	V. Ashok Kumar	27.4.2004 (FN)
6.	Jai Kumar Sridharan	27.4.2004 (FN)
7.	S. B. Shankar	27.4.2004 (FN)

1	2	3
8.	K. M. Varkey	17.5.2004 (FN)
9.	S. S. Giri	28.4.2004 (FN)
10.	Syed Bazulalah	28.4.2004 (FN)
11.	Ashok Sharma	27.4.2004 (FN)
12.	Partha Mukherjee	27.4.2004 (FN)
13.	Hari Kumar Y	01.5.2004 (AN)
14.	S. K. K. Sareen	30.4.2004 (AN)
15.	N. Krishnamurthy	27.4.2004 (FN)
16.	Hari Dut P. G.	19.5.2004 (FN)
17.	P. Balachandran	27.4.2004 (FN)
18.	Ajay Kumar	27.4.2004 (FN)
19.	Rafat Moid Khan	12.5.2004 (AN)
20.	P. Ramamohan Rao	27.4.2004 (FN)
21.	Roy Alexander	28.4.2004 (FN)
22.	Devendra Singh	26.4.2004 (FN)
23.	Satish Dagar	30.4.2004 (FN)
24.	S. K. Nair	10.5.2004 (AN)
25.	Santanu Kar	27.4.2004 (FN)
26.	S. Balasubramany	30.4.2004 (AN)
27.	Sudip Roy	26.4.2004 (FN)
28.	Tapan Jyoti Ghosh	30.4.2004 (FN)
29.	Rajiva Dwivedi	26.4.2004 (AN)
30.	Nalini Kant Pathak	6.5.2004 (FN)
31.	Nanda Kumar V.T.	27.4.2004 (FN)
32.	K. Babu	27.4.2004 (FN)
33.	Nanu Surendran	19.5.2004 (FN)
34.	R. N. Mishra	26.4.2004 (AN)
35.	Shah Nawaz Khan	27.4.2004 (FN)
36.	Ravi Ghambir	5.5.2004 (FN)
37.	Anuj Arya	28.4.2004 (FN)
38.	Dhanbabu Singha	31.5.2004 (FN)
39.	Partha Sarthi Bose	11.5.2004 (FN)
40.	D. S. Dagar	27.4.2004 (FN)
41.	K. S. Thakur	30.4.2004 (FN)
42.	M. S. Hazari	30.4.2004 (AN)
43.	Ajaib Singh	25.5.2004 (FN)
44.	R. S. Kuril	20.5.2004 (FN)
45.	Miss V. Lakra	27.4.2004 (FN)
46.	A. M. Thakur	30.4.2004 (FN)

S. D. BAIJAL
Admn. Officer (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 10th August 2004

No. 2/16/04-Admn./2967—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri D.D. Lohani, Private Secretary in the Commission as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three months on adhoc basis with effect from 13.08.2004 (FN) till further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 6th August 2004

No. P. VII-4/2004-Pers-3—Consequent on their promotion to the post of Administrative/Section Officer, the following Subedar Major/Office Superintendents have taken over charge as Administrative/Section Officer in the Offices as mentioned against each:—

Sl. No.	Name of Officer	Office in which posted	Date of taking over charge
1.	Sh. V.K. Mathew	O/o DIGP, CRPF, Imphal (Manipur)	28.06.2004(FN)
2.	Sh. V. P. Vijaya Kumaran	O/o Addl. DIGP Group Centre, CRPF Guwahati (Assam)	01.07.2004 (FN)

JOGINDRA SINGH
Commandant (Pers-III)

New Delhi-110003, the 12th August 2004

No. O. II.4302/04-PF-DC-Pers-I—Consequent on acceptance of his notice dated 10.03.2004 for voluntary retirement from Government Service, Shri Chhote Lal, Dy. Comdt. (IRLA No. 4302) of 61 Bn CRPF, has been relieved from his post on 01.08.2004 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 01.08.2004(FN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers-I)

DIRECTORATE OF CO-ORDINATION
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-110003, the 5th August 2004

No. A-17011/18/2004-Admn. I—Consequent upon his opting for voluntary retirement from Government Service under Rule 48 of C.S.S. (Pension) Rules, 1972, Shri Anand Sagar Biala, a permanent Extra Assistant Director of this Directorate has retired from Government Service w.e.f. the forenoon of 01.08.2004, submitting a notice of three months

prior to the date of voluntary retirement as required under Rule 48 (1) (a) of CCS (P) Rules, 1972.

KAMALESH DEKA
Director, Police Telecommunications

(DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL
SECURITY FORCE)

New Delhi-110003, the 9th August 2004

No. E-16013 (1)/4/97/Pers. I/1813—On repatriation to parent cadre, Shri Shafi Alam, IPS, (BH : 77), Inspector General (HQ), CISF HQrs., New Delhi relinquished the charge of the post of Inspector General (HQ), CISF, New Delhi in the afternoon of 30th June, 2004. The officer has been sanctioned 60 days Earned Leave w.e.f. 01.07.2004 with necessary permissions, as per rule.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

INDIA SECURITY PRESS

Nashik Road, the 31st July 2004

Sub: Gazetted Officer Gr. 'B' Adhoc Promotion of.

No. 415/G/Estt.-181.—Shri S. D. Aware, Inspector, D.S.O. is appointed to the post of Security Officer, (Group 'B' Gazetted) in the scale of Rs. 6500-200-10500/- on adhoc basis from 01.07.2004 to 30.09.2004 or till the CISF deployment is fully implemented at I.S.P., whichever is earlier.

PRAKASH NARAYAN
General Manager

INDIAN AUDITS AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110002, the 10th August 2004

No. Admn.I/O.O. No. 135—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Bhajana Nand Juyal, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from Government Service on 31.08.2004 (AN).

His date of birth is 26.08.1944 and he joined Government service on 26.09.1966.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

No. Admn. I/O.O. No. 137—Director General of Audit, Central Revenues hereby appoints Shri Karan Singh, Steno Grade-I to officiate as Private Secretary in the scale of pay

Rs. 6500-200-10500/- with effect from 30.07.2004 (AN) until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

OFFICE OF THE PR ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT) RAJASTHAN

Jaipur, the 11th August 2004

No. Admn. I/Au/P-13044/2004—The Pr. Accountant General (Audit) Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Asstt. Audit Officers to the post of Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000 in an officiating capacity till further orders from the dates noted against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
	(S/Shri)	
1.	Babu Lal Gupta	09.03.2004
2.	Gauri Shankar Sharma	01.04.2004
3.	Daya Ram Yadav	03.06.2004
4.	Prakash Jain	02.06.2004
5.	Ram Singh Meena-II, ST	02.06.2004

V.K. JAIN
Audit Officer/Admn.I

No. Admn. I/Au/P-13044/2004—The Pr. Accountant General (Audit)-I, Rajasthan, Jaipur has been pleased to promote the following Section Officers to the post of Asstt. Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500 in an officiating capacity on the probation of two years till further orders from the dates noted against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
	(S/Shri)	
1.	Manoj Kumar Baheti	31.03.2004
2.	Ram Sharan Meena, ST	06.04.2004
3.	Manohar Lal Meena, ST	04.06.2004

V.K. JAIN
Audit Officer/Admn.I

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)

ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 3rd August 2004

The Accountant General (A&E), A.P. Hyderabad is pleased to promote the under mentioned Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the Scale of pay of Rs. 7500-250-12000 with effect from the date shown against her name.

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A.O.
1.	Smt. K. Lalitha Devi	2nd August, 2004 Afternoon

The promotion ordered is without prejudice to the claims of her seniors, if any and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

D. RADHAKRISHNAMURTHI
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KERALA

Thiruvananthapuram, the 13th August 2004

No. O.E/E & C/EIVP/85.—The following Officials of IA&AD retired from Service

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. Mariamma Kurien	Sr Accounts Officer	30.07.2004 (FN) (Voluntary Retirement)

Sd/-ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT)-I, ORISSA

Bhubaneswar, the 11th August 2004

No. Admn.-I (Au) 17-2(AO)/Vol. V/932 E.O. No. 18—In pursuance of OOC No. 462 dtd. 02.08.2004, communicated vide Memo No. Admn.-I(Au)17-2(AO)/Vol. IV/850 dtd: 02.08.2004, the following Officers on promotion have assumed charge as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date indicated against them.

Sl. No.	Name of the Officers taken over charge as Audit Officer	Date of Taking over charge as Audit Officer
	S/Shri	
1.	Prasanna Kumar Bhanja	02.08.2004 FN
2.	K. Chalamaya Sastry	04.08.2004 FN

The promotion to the cadre of Audit Officer is subject to the final decision of the Hon'ble High Court/C.A.T./Supreme Court on the cases subjudice in the courts and without prejudice to the claims of their seniors.

Y.N. THAKARE
Sr. Dy. Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ORISSA

Bhubaneswar, the 02nd August 2004

No. Admn.-I-IAD-Group 'B'-475-EO-19—The Accountant General, Orissa has been pleased to allow Sri R.N. Das, Assistant Accounts Officer (on deputation to Aviation Research Centre, Charbatia, Dist-Cuttack) to officiate as Accounts Officer, in the scale of Rs. 7500-250-12000/-, consequent on his acceptance of offer of promotion issued vide this office OOC No. 248 dated 20.06.2004 with effect from 28.06.2004, the date on which his junior Miss. Nilotpala Mohanty reported to duty, as per the provision laid down in Next Below Rule under FR 22.

Sri R.N. Das, will rank above Miss Nilotpala Mohanty and below Sri Debendra Nath Sahoo, in the cadre of Accounts Officer.

The promotion is on adhoc basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any, and without prejudice to the claims of his seniors.

A.K. NANDA

Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

Kolkata-700064, the 4th August, 2004

No. Jute(A)/147/58-VI Part-III—The President is pleased to appoint Shri U. Sen as Assistant Director (Jute Manufacture) a Group 'A' Gazetted Post in the office of the Jute Commissioner, Ministry of Textiles in the pay Scale of Rs. 8000-275-13500/- with retrospective effect from the forenoon of 1st October, 2002 on regular basis.

This is issued in Supersession of previous notification of even no. dated 30.05.2003.

S.K. DAS

Dy. Jute Commissioner.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES OFFICE
OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 10th August 2004

No. A-31013/1/2004-Admn.(G)—The president is pleased to appoint the following officers to the grade of Deputy Director (Chemical) i.e. the grade in which they were appointed by direct recruitment in Small Industry Development Organisation in a substantive capacity with effect from the date indicated against each:

Sl. No.	Name of the Officer	Date from which appointed in a substantive capacity
	S/Shri	
1.	S.M. Tajudeen	17.08.1990
2.	Sankar S. Vijay Kumar (SC)	12.11.1994
3.	D. Chandra Sekhar (SC)	22.04.1998

S.V.N. PILLAI

Dy. Director (Admn.)

No. A-19018/727/84-Admn.(G)—On attaining the age of superannuation, Shri Gopal Krishna Datta, Deputy Director (Chemical), Regional Testing Centre, Kolkata under Small Industry Development Organisation retired from Government Service on the afternoon of 31.07.2004.

S.V.N. PILLAI

Dy. Director (Admn.)

KHAN MANTRALAYA

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata, the 13th August 2004

No. 1928A/A-32013/5-Dir. (ME)/2002/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the President is pleased to appoint Shri G.K. Mishra, Mechanical Engineer (Sr.) Geological Survey of India to the post of Director (ME) on promotion on regular basis on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500- in the same department with effect from 23.07.2004(FN), until further orders.

S.K. SINHA,

Sr. Administrative Officer

For Director General

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 2nd August 2004

No. 19011/515/2003-Estt. APP—"Shri D.S. Karkare, Junior Mining Geologist, Indian Bureau Of Mines, has relinquished charge on the After-noon of 31.07.2004 on attaining the age of superannuation.

B. SOOD,

Asstt. Admn. Officer

The 13th August 2004

No. A-19012/380/2004-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri S.D. Vairagade, Store-Keeper (Technical) has been promoted to the post of Assistant Stores Officer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 30.07.2004(FN).

B. SOOD,

Asstt. Admn. Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 7th August 2004

Ref. NFC/ADM/PEN/EC-2015/548—On attaining the age of superannuation, Shri G.V.N. Avadhany, Scientific Officer 'G' (Scale of pay of Rs. 16400-450-20000) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.07.2004.

G. KOTESWARA RAO,

Administrative Officer

Ref. NFC/ADM/PEN/EC-2296/549.—On attaining the age of superannuation, Shri C. Radhakrishna, Scientific Officer 'G' (Scale of pay of Rs. 16400-450-20000) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.07.2004.

G. KOTESWARA RAO,
Administrative Officer

Ref. NFC/ADM/PEN/EC-1758/550.—On attaining the age of superannuation, Shri T. Chandramoulaiah, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12000-375-16500) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.07.2004.

G. KOTESWARA RAO,
Administrative Officer

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 6th August 2004

No. F. 48-Ad(AT)/2004.—The following officials are hereby appointed to officiate as Assistant Registrars, Income tax Appellate Tribunal on ad-hoc basis in a temporary capacity for a period of six months from the date and in the Bench(es) indicated against each or till the posts are filled up on regular basis whichever is earlier.

Sl. No.	Name	Bench(es)	Date
1.	S/Shri S.K. Ray, (Superintendent)	Mumbai	06.09.2004
2.	M.M. Biswal (Office Supdt.)	Mumbai	09.08.2004

The above appointments are ad-hoc and will not bestow upon them a claim for regular appointment in that grade and the services rendered by them on ad-hoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI
President

No. F. 301-Ad(AT)/2004.—Shri K. P. Vijaykumar, Steno, Grade-II of Gujarat State Civil Supplies Corpn. Ltd., 'CH' Road, Gandhinagar is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Ahmedabad Benches, Ahmedabad with effect from 19.07.2004(FN) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Deptt. of Personnel &

Training) O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI
President

The 17th August 2004

No. F. 48-Ad(AT)/2004.—Shri P.K. Rastogi, Office Superintendent, officiating as Superintendent, Income Tax Appellate Tribunal, Mumbai Benches on ad-hoc basis is appointed to officiate as Assistant Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, Jaipur Bench on ad-hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 22nd July, 2004 or till the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

2. Shri D.G. Sahoo, Office Superintendent, Income Tax Appellate Tribunal, Kolkata Benches, Kolkata is appointed to officiate as Assistant Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, Visakhapatnam Bench, Visakhapatnam on ad-hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 19th July, 2004 or till the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

3. Shri R. Kujur, Office Superintendent, officiating as Superintendent, Income Tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, New Delhi on ad-hoc basis is appointed to officiate as Assistant Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, Amritsar Bench, Amritsar on ad-hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 20th July, 2004 or till the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

The above appointment are ad-hoc and will not bestow upon them a claim for regular appointment in that grade and services rendered by them on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI
President

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s Landform Architects India Private Limited

New Delhi-110003, the 10th August 2004

No. 560(3)/55/79545/1308.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s, Landform Architects India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

M.K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manupriya Finance Private Limited

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-19549/4088.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manupriya Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anmol Horticulture and Forestry Pvt Ltd.

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-22775/4095.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anmol Horticulture and Forestry Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Akbarpur Cold Storage Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-24559/4097.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Akbarpur Cold Storage Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saryu Sugar Mills Ltd.

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-15764/4099.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saryu Sugar Mills Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Troops Trax Finance Company Limited

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-22402/4101.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Troops Trax Finance Company Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M.K.G. Marketing Services Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-24728/4103.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M.K.G. Marketing Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahalaxmi Gases Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-7443/4105.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahalaxmi Gases Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Singh & Verma Fuels Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-14608/4107.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Singh & Verma Fuels Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rani Sati Fuels Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-14577/4109—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rani Sati Fuels Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vudsvam Papers Private Limited

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-11171/4111—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vudsvam Papers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ruchi Press Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-11265/4113—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ruchi Press Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prem Tar Udyog Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-11172/4115—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prem Tar Udyog Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hindon Sugar Mills Limited

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-15763/4117—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hindon Sugar Mills Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vam Petro Products Limited

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-11564/4119—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vam Petro Products Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Harvivek Finance Company Private Limited

Kanpur-208001, the 3rd August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-7800/4121—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Harvivek Finance Company Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanio Paper Products Private Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-9660/4135—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanio Paper Products Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sajam Housing finance & Leasing Co. Private
Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-13795/4137—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sajam Housing finance & Leasing Co. Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pab Forgings Private Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-9169/4139—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pab Forgings Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anukit Learning Network Private Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-19857/4141—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anukit Learning Network Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. R. K. Traders & Investments Private Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-12859/4143—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. K. Traders & Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anisha Excursions (India) Private Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-6049/4145—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anisha Excursions (India) Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramco Alloys Private Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-18250/4147—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ramco Alloys Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. V. K. M. Housing & General Finance Private
Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-16250/4149—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. V. K. M. Housing & General Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. B. Motor Finance Private Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-19163/4151—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. B. Motor Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kashi Food Products Private Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-11376/4153—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kashi Food Products Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Meerut Mould Private Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-10604/4155—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meerut Mould Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanak Foods Private Limited

Kanpur-208001, the 4th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-19977/4179—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanak Foods Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. B. N. Chattopadhyaya Architects and
Consultants Private Limited

Kanpur-208001, the 10th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-10745/4248—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. B. N. Chattopadhyaya Architects and Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hike Infotech Private Limited

Kanpur-208001, the 11th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-23341/4268—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hike Infotech Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. N. P. Builders Private Limited

Kanpur-208001, the 11th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-17670/4269—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N. P. Builders Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gaytari Hire Purchase Private Limited

Kanpur-208001, the 11th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-10691/4271—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gaytari Hire Purchase Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Unique Expression Private Limited

Kanpur-208001, the 11th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-20371/4273—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unique Expression Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shankar Fibres Private Limited

Kanpur-208001, the 11th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-12197/4275—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shankar Fibres Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jagota Finance & Investment Private Limited

Kanpur-208001, the 11th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-23341/4277—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jagota Finance & Investment Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bisheshwar Investments Private Limited

Kanpur-208001, the 11th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-13773/4279—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bisheshwar Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. J. D. G. Fincap Limited

Kanpur-208001, the 11th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES-20704/4282—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. D. G. Fincap Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Intel Health Care Private Limited

Kanpur-208001, the 12th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES- 25757/4294—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Intel Health Care Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prerna Publications Private Limited

Kanpur-208001, the 12th August 2004

No. 560 (5)/LC/SES- 22125/4296—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prerna Publications Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M.R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
UP & Uttaranchal.

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Patna-800001, the 22nd July 2004

No. Roc/Pat/560/SES—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Name of Co. (M/s)	Regn. No.
1	2	3
1.	Dina Fuels Ltd.	6635
2.	Dina Ferro Alloys Ltd.	6809
3.	Archean Gneiss Construction Co. Pvt. Ltd.	3415
4.	Bihar Fabrication & Casting Pvt. Ltd.	0940
5.	Niti Properties Pvt. Ltd.	4446
6.	Angoor Paints Pvt. Ltd.	7858
7.	Samprati Finance Private Limited	7537
8.	Ampra Pharmaceuticals Private Limited	5039
9.	Bhavini Pharma Private Limited	8867
10.	Sapna Films Private Limited	9009
11.	Kataruka Traders Private Limited	9008
12.	Diamond Cards (India) Private Limited	5741

1	2	3	1	2	3
13.	IND Gases Private Limited	5249	50.	Gutgutia Polyrub Pvt. Ltd.	3546
14.	Ajay Traders Private Limited	9010	51.	Profit Home Care Products Pvt. Ltd.	7287
15.	Dina Commercials Limited	8593	52.	Om Cables Pvt. Ltd.	4563
16.	Abdul Sattar Developers Private Limited	5421	53.	Azad India Housing and Investment Company Ltd.	5720
17.	Yugal Janki Private Limited	2056	54.	Hotel Lichchhvi Pvt. Ltd.	2854
18.	Balaji Intelligence & Security Services Pvt. Ltd.	7596	55.	V. L. Construction Pvt. Ltd.	3052
19.	Sheo Shankar Oil & Dal Mills Pvt. Ltd.	2324	56.	Raman & Sons Pvt. Ltd.	2437
20.	Mona Computer Pvt. Ltd.	7094	57.	Forward Saving & Placement Pvt. Ltd.	6699
21.	Balkal Export Pvt. Ltd.	7755	58.	Kwikpak Pvt. Ltd.	8813
22.	Shiv Ganga Refinery Pvt. Ltd.	6799	59.	Budha Housing and Construction Pvt. Ltd.	9376
23.	Bhawani Cold Storage Pvt. Ltd.	3178	60.	Hytex Homes Pvt. Ltd.	4808
24.	Jaiswal Roller Flour Mill Pvt. Ltd.	3086	61.	TRGSONS Foodscs. Pvt. Ltd.	6047
25.	Abheruchi Builders Pvt. Ltd.	3444	62.	Ranchi Automobiles Pvt. Ltd.	8503
26.	Awaas Marketing Pvt. Ltd.	5679	63.	Kaveri Ganga Export Import Pvt. Ltd.	3283
27.	Chemical & Fertilizer Corporation (Bihar) Ltd.	2806	64.	Amba International (exim) Pvt. Ltd.	8484
28.	Asha & Maya Iron & Steel, Company Pvt. Ltd.	8808	65.	Sunrise Photo Pvt. Ltd.	9469
29.	Patna Stores Pvt. Ltd.	126	66.	Eklavya Engineering and Development Services Pvt. Ltd.	9078
30.	Vashali Tyre Cold Retreads Pvt. Ltd.	3042	67.	Suptiya Chemical Industries Pvt. Ltd.	2464
31.	Takshila Steels Pvt. Ltd.	6891	68.	Esajay Securities Pvt. Ltd.	6197
32.	N.R. Metals Pvt. Ltd.	6467	69.	Xenia Exports Pvt. Ltd.	4761
33.	Piruka Ispat Pvt. Ltd.	4457	70.	Arohi Constructions Pvt. Ltd.	9348
34.	Beehive Builders Pvt. Ltd.	4190	71.	Veena India Smokeless Fuel Pvt. Ltd.	4762
35.	Kaushal Vyapar & Vinlyog Pvt. Ltd.	2031	72.	Alok Engineering and Construction Pvt. Ltd.	2559
36.	Grihastha Home Leasing Ltd.	6927	73.	Aamon Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	1358
37.	Emm Vee Traders Pvt. Ltd.	3563	74.	Shelter Constructions Pvt. Ltd.	7924
38.	Vaishno Finvest Pvt. Ltd.	8088	75.	P.H. Diesels Pvt. Ltd.	1629
39.	Raghav Automobiles Pvt. Ltd.	2880	76.	XEBEC Expo Pvt. Ltd.	5239
40.	Romson Consultancy Pvt. Ltd.	1657	77.	Royal Breweries Pvt. Ltd.	2815
41.	Ideal Biscuit Co. Pvt. Ltd.	3551	78.	Ajanta Estate Construction Pvt. Ltd.	1760
42.	Mrinal Data Peripherals Pvt. Ltd.	3388	79.	Dwarika Apartment Pvt. Ltd.	4497
43.	SGV Computer Print Pvt. Ltd.	3225	80.	S. R. Menthol Pvt. Ltd.	5013
44.	Corporate Experts Consultancy Services Pvt. Ltd.	7218	81.	Jayanti Containers & Plastics Pvt. Ltd.	5333
45.	Navshakti Finvest Pvt. Ltd.	6344	82.	Haasan Prasad Eye Centre Pvt. Ltd.	5087
46.	Pasari Data Processing Pvt. Ltd.	4859	83.	Metaplanners & Management Consultants Pvt. Ltd.	2422
47.	Astera Finvest Pvt. Ltd.	6343	84.	Flyabs Coal Bricks Manufacturing Pvt. Ltd.	4143
48.	Esajayen Finvest Pvt. Ltd.	6346	85.	Sankalp Business Enterprises Pvt. Ltd.	8681
49.	Dynamic Finsec Pvt. Ltd.	6347	86.	Standard Wires & Cables Pvt. Ltd.	1369

1	2	3	1	2	3
87.	Ruchika Financial Services Pvt. Ltd.	7843	124.	Bimlesh Trading Pvt. Ltd.	6850
88.	Kala Steels Pvt. Ltd.	6123	125.	Roll Marketing Services Pvt. Ltd.	8412
89.	Minjur Cassettes Pvt. Ltd.	5346	126.	Sheltas Ltd.	1046
90.	Sarvottam Hybrid Pvt. Ltd.	8640	127.	Globe Fabricators Pvt. Ltd.	1710
91.	Mam Enterprises Pvt. Ltd.	1129	128.	Amit Auto Industries Pvt. Ltd.	2280
92.	TRI Overseas Pvt. Ltd.	5224	129.	Shabnum Engineering & Foundry Pvt. Ltd.	0736
93.	Patadia Engineering Products Pvt. Ltd.	6701	130.	Eastern Pine Products Pvt. Ltd.	5894
94.	Narmada Milk Food Products Pvt. Ltd.	9056	131.	Delta Carriers Pvt. Ltd.	9136
95.	Investors Consultant Pvt. Ltd.	6065	132.	Karpura Ceramics Pvt. Ltd.	1237
96.	Madhuri Builders Pvt. Ltd.	6497	133.	Bhatia & Associates Pvt. Ltd.	3231
97.	Aishwarya Cement Ltd.	5210	134.	Budhia Brothers Pvt. Ltd.	142
98.	Namaskar Engineers Pvt. Ltd.	5988	135.	Chandil Hotel Pvt. Ltd.	2140
99.	Attalika Nav Nirman Pvt. Ltd.	2848	136.	Mamta Distributors Pvt. Ltd.	2761
100.	Radha Ploymedik Pvt. Ltd.	2429	137.	Sahli Construction Company Pvt. Ltd.	4236
101.	Anand & Gayatri Shopping Pvt. Ltd.	3437	138.	Lal Precious Crafts Pvt. Ltd.	9319
102.	Selco Construction Pvt. Ltd.	4183	139.	Jalan Prints Pvt. Ltd.	1970
103.	Ana Technical Enterprises Pvt. Ltd.	3471	140.	The Khandelwal Textiles Mills Pvt. Ltd.	3931
104.	Bhaskar Home Fina Pvt. Ltd.	7121	141.	Geema Consultants Pvt. Ltd.	9042
105.	Infotel Engineering Pvt. Ltd.	8086	142.	A.C. Massina Beej Pvt. Ltd.	8182
106.	Mansona Synthetics Pvt. Ltd.	4329	143.	Massina Highbreed Pvt. Ltd.	1427
107.	Jaiswal Agro Oil Pvt. Ltd.	7515	144.	Precision Products (Jamshedpur) Pvt. Ltd.	2221
108.	Patliputra Fruits Pvt. Ltd.	6923	145.	Sinha Estates Private Limited	7887
109.	Modsons Chemicals & Cosmetics Pvt. Ltd.	3270	146.	Survey & Investigation Services Private Limited	3499
110.	Tarai Sugar Industries Pvt. Ltd.	1371	147.	Indiana Marketing Company Pvt. Ltd.	1432
111.	Nesile Construction Pvt. Ltd.	5664	148.	R. K. Publicity Pvt. Ltd.	1288
112.	Babila Securities Pvt. Ltd.	6985	149.	Subernrekha Engineering Company Pvt. Ltd.	1708
113.	Tanwee Builders Pvt. Ltd.	4339	150.	Shahabad Transformer Pvt. Ltd.	8945
114.	Apex Surgicals Pvt. Ltd.	4204	151.	IRA Surveyors & Valuers Pvt. Ltd.	8688
115.	Harshit Homes Pvt. Ltd.	6451	152.	Rakshita Industries Limited	7457
116.	DKS Finance & Investment India Ltd.	6222	153.	Shew Kawal Trading Pvt. Ltd.	7649
117.	S. P. Peoples Association Ltd.	0421	154.	Zenon Computers Pvt. Ltd.	7427
118.	Mars Chemical Manufacturing Company Pvt. Ltd.	3039	155.	J. Con. Private Ltd.	3617
119.	Prarambhika Education Pvt. Ltd.	9955	156.	Mukul Drugs Pvt. Ltd.	1978
120.	Purvdeep Transmission Pvt. Ltd.	4106	157.	Bhameswari Coal Transport Company Pvt. Ltd.	3692
121.	Jala Rubber Works Pvt. Ltd.	4331	158.	Gridvision Infotech Pvt. Ltd.	JH47
122.	Shree Ganesh Board and Industries Pvt. Ltd.	2565	159.	Panch Poly Pvt. Ltd.	5917
123.	Agri India Pvt. Ltd.	1320			

1	2	3
160.	Enra Consultants Pvt. Ltd.	7435
161.	Greenclty Publication Pvt. Ltd.	4984
162.	Ravi Shankar Prasad Construction Pvt. Ltd.	3618
163.	Shamera Leasing & Investment Pvt. Ltd.	7216
164.	Saptarshi Builders And Engineers Pvt. Ltd.	1973
165.	Simant Travels Pvt. Ltd.	3484
166.	Mithila Greens Limited	7451
167.	Awasani Developers Pvt. Ltd.	9243
168.	Himalaya Phosphates Ltd.	2124
169.	Om Shanti Flour Mills Pvt. Ltd.	2940
170.	Sant Kripa Rice Mills Pvt. Ltd.	7768
171.	Oshin Construction Pvt. Ltd.	5387
172.	Patna Prakashan Ltd.	5554
173.	Vijeta Weekly Lottery Agency Pvt. Ltd.	3610
174.	Arch-Con Tech Engineers Pvt. Ltd.	3596
175.	Hotel Jayanti Pvt. Ltd.	6596
176.	Trinayani Builders Pvt. Ltd.	7374
177.	Sri Ganesh Projects Pvt. Ltd.	4089
178.	Methoprim Chemical (India) Pvt. Ltd.	3552
179.	Srijan Economy India Pvt. Ltd.	7542
180.	SJM Financial & Developers Pvt. Ltd.	6122
181.	Harison Exports Pvt. Ltd.	4522
182.	Connectors India Pvt. Ltd.	3478
183.	Sheetal Economy India Ltd.	6857
184.	Bimla Flour Mills Pvt. Ltd.	3512
185.	Shaan Services Pvt. Ltd.	7734
186.	Sunita Farms Pvt. Ltd.	7501
187.	Kay Kay Insurance Advisors Pvt. Ltd.	9724
188.	Cookfast Foods Pvt. Ltd.	3789
189.	Dilli Soaps & Chemicals Pvt. Ltd.	2713
190.	Ginni Graphites Pvt. Ltd.	6027
191.	Raj Educational Foundation Pvt. Ltd.	7545
192.	Rai Chemicals Co. Pvt. Ltd.	3656
193.	Alankar Developers & Consultants Pvt. Ltd.	5225
194.	Friends Carbonic Pvt. Ltd.	3436
195.	Hajipur Instant Tech Automobiles Pvt. Ltd.	6310
196.	Jalashree Gases Pvt. Ltd.	2556
197.	Omi Foods Pvt. Ltd.	5936
198.	Sangrila Finance Pvt. Ltd.	6606

1	2	3
199.	AID Lab Pvt. Ltd.	3473
200.	Arun Priyadarshi Trading Pvt. Ltd.	8211
201.	Dhanbad Prakashan Pvt. Ltd.	5076
202.	Cosmen Finance & Investment Ltd.	4676
203.	Krishna Engitech Pvt. Ltd.	3674
204.	The East Bhalgora Colliery Co. Pvt. Ltd.	0049
205.	Aerosol Healthcare Pvt. Ltd.	9701
206.	Dashmesh Infrastructure Pvt. Ltd.	JH-159
207.	Bihar Quest Network Marketing Pvt. Ltd.	9917
208.	Konark Forestry & Resort Ltd.	7961
209.	Veena Ferro-Chem Pvt. Ltd.	8292
210.	Paragon Transmission (India) Pvt. Ltd.	4755
211.	Mackme Papers Pvt. Ltd.	4545
212.	Roshan Brother Coal Trades Pvt. Ltd.	9067
213.	CMC Marketing Pvt. Ltd.	3593
214.	TMS Boards & Industries Pvt. Ltd.	3046
215.	Raj Karmal Nirman Pvt. Ltd.	9667

J. K. JOLLY,
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies
Chennai, the 28th July 2004

No. 8834 to 48723/560 (5)/2004—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the names of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and are dissolved :—

Sl. No.	Regn No.	Name of the Company
1	2	3
1.	8834	M/s. Kattunaleken Match Works Company Pvt. Ltd.
2.	9767	M/s. Tube Investments of India Management Employees Welfare Foundation Limited
3.	10238	M/s. Standrive Ellison Private Limited
4.	10547	M/s. First Sunpower Private Limited
5.	13005	M/s. Jaz-Zips Private Limited
6.	13243	M/s. Acme Chain Company Limited
7.	13479	M/s. Sri Balaji Aluminum Containers Private Limited
8.	14489	M/s. Saied Professional Electronics Private Limited
9.	19500	M/s. Juvel Cans Private Limited

1	2	3
10.	20283	M/s. Valli Shoes Private Limited
11.	20307	M/s. Quantum Computer Services Private Limited
12.	20816	M/s. JC Finance and Investments Private Limited
13.	21056	M/s. Pattabi Textiles Private Limited
14.	21849	M/s. Senthil Ganesh Finance Private Limited
15.	28201	M/s. S.R.P. Financial Services Private Limited
16.	28037	M/s. Sribas Estates Private Limited
17.	28546	M/s. Kampathu Ilayana Chits Private Limited
18.	28553	M/s. Paradigm Transcomps Private Limited
19.	28604	M/s. Sri Malayandi Chits Private Limited
20.	30174	M/s. Jecceedee Trading Company Private Limited
21.	30787	M/s. Wellfin India Private Limited
22.	30809	M/s. Damodar Securities Limited
23.	30992	M/s. Unifine Benefit Fund Limited
24.	31340	M/s. M.R. Flourine Private Limited
25.	31789	M/s. ESEK Holdings Private Limited
26.	32858	M/s. Parakat Investments Private Limited
27.	32899	M/s. C. V. S. Foods India Limited
28.	32912	M/s. Shriram Chits (East) Private Limited
29.	35099	M/s. Master Minds Computers Private Limited
30.	35583	M/s. Mesa Sheeps and Goats Farms India Private Limited
31.	36679	M/s. Silver Screen Financial Services Limited
32.	38484	M/s. Rajyog Papers Private Limited
33.	40696	M/s. Amco Energy Systems Private Limited
34.	43149	M/s. Koneru Property Development Private Limited
35.	48723	M/s. Tricon-PL Shipping & Logistics Private Limited

V. SWAMIDASGN
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai, the 28th July 2004

No. 9157 to 50046/360(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (5) of Section 360 of the Companies Act 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	9157	M/s. MVD Home Appliance P. Limited
2.	15609	M/s. Sumy Leathers P. Limited.
3.	18449	M/s. Vailankanni Youth Welfare Academy Limited
4.	18865	M/s. UIE Investments Finance P. Limited
5.	19078	M/s. Aiyeshwarya Agro Tech P. Limited.
6.	22895	M/s. Gaurav Sales P. Limited.
7.	25473	M/s. S.S.P.R. Salt Industries P. Limited.
8.	25637	M/s. Sura Leathers & Garments Limited.
9.	26391	M/s. Jothinagar Benefit Fund Limited.
10.	26759	M/s. Rastoji Furnishings P. Limited.
11.	27440	M/s. Sacs Leasing & Hire Purchase P. Limited.
12.	29204	M/s. Sums Securities P. Limited.
13.	29219	M/s. Ramakrishna Spices P. Limited.
14.	29331	M/s. M. Annie Financial Services P. Limited
15.	29332	M/s. M. Annie Chits P. Limited.
16.	29535	M/s. Sweta Finance P. Limited.
17.	30901	M/s. Durga Rollons P. Limited.
18.	31973	M/s. Envy Risk Management Limited.
19.	32633	M/s. Gauss Tech (India) P. Limited.
20.	33427	M/s. Andaman Divers P. Limited.
21.	35496	M/s. Saai Murugan Tours & Travels P. Limited.
22.	36737	Saai Murugan Investments P. Limited.
23.	40825	M/s. Sudharshan Travel Services P. Limited.
24.	43389	M/s. Feast Inn P. Limited.

1	2	3
25.	44310	M/s. CRV Infotech P. Limited.
26.	44784	M/s. A.J. Cargo P. Limited
27.	45220	M/s. Empower Circle Com Limited.
28.	45853	M/s. Zamba India P. Limited.
29.	46247	M/s. Old Parents Care Taking Organization P. Limited

1	2	3
30.	46823	M/s. Andaman Ship Management Co. P. Limited.
31.	47818	M/s. Tidel 2 Limited.
32.	50046	M/s. W.S. Procelains P. Limited.

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu